

23rd May, 2018

To,

The Manager (Listing)
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Code: 532290

To,

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051

Scrip Code: BLBLIMITED

Sub.: Submission of Newspaper cutting of published Notice

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached copy of the Notice published in the "**Financial Express**" (*English, all India Edition*) and "**Jansatta**" (*Hindi, local edition*) on **22nd May, 2018** for the Board Meeting to be held on Wednesday, 30th day of May, 2018, interalia, to consider and approve the following:

1. Audited Financial Statements (Standalone and Consolidated) for the financial year ended on 31st March, 2018.
2. Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter ended on 31st March, 2018 along with statement of assets and liabilities for the half year ended on 31st March, 2018.
3. Any other business.

This is for your kind information and records.

Thanking you,

Yours Truly,

For **BLB LIMITED**


(ABHA GARG)
COMPANY SECRETARY



BLB Limited

CIN : L67120HR1981PLC051078
Corporate Member : NSE

WWW.FINANCIAREXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

LVMH-backed PE firm to acquire 10% in Future Lifestyle Fashions

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, May 21

FRENCH LUXURY GOODS conglomerate LVMH-backed private equity firm L Catterton Asia will acquire 10% stake in Kishore Biyani-led Future Lifestyle Fashions (FLFL) for an undisclosed sum.

"L Catterton Asia will acquire an approximately 10% stake in FLFL through a mix of preferential allotment and secondary purchase of shares," FLFL said in a regulatory filing on Monday. "L Catterton Asia's significant investment in FLFL will enable FLFL's retail formats, Central and Brand Factory, and own brands to leverage the global fashion and retail expertise of L Catterton to further strengthen and expand

Future Group founder and CEO Kishore Biyani said this investment reinforces FLFL's position as India's leading lifestyle fashion company

the business," the company said. Future Group founder and CEO Kishore Biyani said this investment reinforces FLFL's position as India's leading lifestyle fashion company while opening up avenues of global collaboration for us.

L Catterton Asia chairman and managing partner Ravi

Thakran said, "We have jointly identified areas where we can bring our unparalleled fashion and brand experience to unlock value for all stakeholders." "The underpenetrated retail sector in India offers significant opportunity and we look forward to working alongside Biyani and the outstanding management team throughout this next phase of the company's growth," he said. Lazard India acted as the sole financial adviser to FLFL and its shareholders. Founded in 2012, FLFL owns and markets about 30 fashion brands through exclusive brand out-

lets, department stores and multi brand outlets, as well as company operated chains.

Promoters, shareholder sell Future Lifestyle stake

Five entities, including promoters, sold 8.5% stake in Future Lifestyle Fashions for nearly ₹700 crore, through open market transactions. Among the five entities, four are promoters namely Surplus Finvest, Suhani Trading and Investment Consultants, Future Ideas Company and Ryka Commercial Ventures while the fifth one is Pioneer Investment Fund.

EO
ELECTRIC
energising

NOTICE is hereby given that the Board of Directors of Eon Electric Limited has approved the financial statements for the year ended March 31, 2018. The Notice is also available on the website of Stock Exchange of India Limited.

Place: Noida
Date: May 21, 2018

BO
(Inv)

Regis
Ganp
CIN: 1

ADDE
A. A

M

A

A

A

A

A

A

B.

A

A

A

A

A

A

A

Place
Date

Mu



Registered Office : Dhrangadhra 363 315,
Gujarat State Head Office : Nirmal, 3rd Floor,
Nariman Point, Mumbai 400 021
Website: www.dcwtd.com , Tel : 22871914, 1916
Telefax: 22 22028838 E-mail: ho@dcwtd.com
CIN: L24110GJ1939PLC000748

NOTICE

Notice is hereby given that the 385th meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 29th May, 2018 at 12.00 noon at Nirmal, 3rd Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021, to inter-alia consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2018.

This information is also available on the Company's website i.e. www.dcwtd.com and on the websites of the stock exchanges @ www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For DCW Limited

Sd/-

Jigna Karnick

Dy. Company Secretary

Date : May 21, 2018

BLB LIMITED



CIN: L67120HR1981PLC051078

Regd. Office: SCO (Shop Cum Office) No. 22, Spring Field Colony, Extension No. 1, Near Sector - 31-32, Faridabad - 121003, Haryana
E:- infobl@blblimited.com, W:- www.blblimited.com

NOTICE

This is pursuant to Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30th May, 2018 at the Corporate office of the Company, inter alia, to consider and approve the Audited Financial Statements & Results (Standalone & Consolidated) of the Company for quarter and year ended March 31, 2018 along with Statement of Assets and Liabilities for the half year ended March 31, 2018 and to recommend dividend, if any.

The intimation is also available on the website of the Company i.e., www.blblimited.com, and also on the website(s) of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

For and on behalf of
BLB LIMITED

Sd/-

(Abha Garg)

Company Secretary

Place: New Delhi

Date: 21.05.2018

PUBLIC ANNOUNCEMENT

FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF POONAM REALTORS LIMITED

PURSUANT TO SEBI CIRCULAR NO. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 DATED OCTOBER 10, 2016

Registered Office: 12 Udyog Nagar, S V Road, Goregaon West, Mumbai - 400 052.

CIN: U65990MH1974PLC017547 Tel: 022-28752648 Fax: 022-28786556 Email: poonamrealtors@gmail.com

This Public Announcement ("PA") is being issued by Mr. Rushang Shah and Mr. Aashay Shah (hereinafter referred to as the "Acquirers"), being the promoters of Poonam Realtors Limited ("PRL" / the "Company"), on behalf of themselves and/or entities forming part of promoter group to the Public Shareholders of PRL in accordance with SEBI Circular no. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 dated October 10, 2016 (hereinafter referred to as "SEBI Circular") in respect of the proposed Exit Offer.

I. BACKGROUND

PRL is a Public Limited Company incorporated under provisions of Companies Act, 1956 having its registered office at 12 Udyog Nagar, S V Road, Goregaon West, Mumbai - 400 052. The equity shares of PRL were listed on the Pune Stock Exchange Limited ("PSE") and Ahmedabad Stock Exchange Limited ("ASE"). The Company has been placed on the Dissemination Board ("DB") of National Stock Exchange of India Limited ("NSE"/ "Stock Exchange") with effect from June 20, 2016. The paid-up equity share capital of PRL as on March 31, 2018 is Rs. 5,00,00,000 comprising of 50,00,000 equity shares of Rs. 10/- each.

Shareholding Pattern of PRL as on March 31, 2018:

Particulars	No of Equity Shares	% of Equity Share Capital
Promoters / Acquirers	44,43,600	88.87
Public	5,56,400	11.13
Total	50,00,000	100.00

For the financial year ended March 31, 2018, PRL had earned a total income of Rs. 12,03,071 with a PAT of

INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.
(A Government of India Enterprise - Mini Ratna)

Government of India

Public Enterprises Selection Board
invites applications for the post of

Director (Finance)

in

**Indian Railway Catering & Tourism
Corporation Limited (IRCTC)**

Last date of receipt of applications in

PESB is by 15:00 hours on

9th July, 2018

For details login to website

<http://www.pesb.gov.in>

ALORA TRADING COMPANY LIMITED

CIN NO: L70100MH1982PLC296275

Regd. Off.: Shop No. 37, Rock Avenue, E Plot,
Hindustan Naka, Kandivalli (w), Mumbai, 400067.

Phone: 022-65172555

Email: aloratradingcompany@gmail.com

Web: www.aloratradingtd.com

NOTICE

Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, 30th May, 2018 at 5.00 PM at its Registered Office** to consider, approve and take on record, inter alia, the **Audited Standalone Financials of the Company** for the quarter and year ended on **31st March, 2018** and any other matter with permission of the Chair.

The said intimation is also available on Company's website

www.aloratradingtd.com and may also be available on BSE website

